

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-2

पत्रांक:- .....718.3740.....

दिनांक 26.06.....2023

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, सासाराम-2

सेवा में,

सचिव-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना ।

विषय:- MMGSY (GEN) मद में आवंटन निर्गत करने हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक MMGSY(GEN) मद में संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु०:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

  
26/06/23

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, सासाराम-2

  
26/06/23

**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

Form of utilisation Certification up to month of UP TO May . 2023

**MMGSY (GEN)**

**R.W.D. Works Division-Sasaram-2 (Rohtas)**

SL. NO.	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (In Rs. Lacs)	Amount Received (In Rs. Lacs)	Particulars
s1.	Construction of Rural Road under M.M.G.S.Y (GEN.)	Secretary cum Empowered officer B.R.R.D.A Letter No- 257 Date-10.03.22	2074.92093	Certified that out of Rs. 2074.92093 of grant in aid received during the Year 2017-2023 in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Div. Sasaram-2 A sum of Rs 2074.92093 Lacs has been utilized for the purpose of M.M.G.S.Y (GEN) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.00 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
		<b>Total</b>	2074.92093	


2. Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


**Kind of Checks exercised:-**

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBS and test check conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

**3. Physical progress achieved:**

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

  
Rural Works Department  
Works Div. Sasaram-2

  
Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Div. Sasaram-2

  
26/06/23

**Rural Works Department**  
**MMGSY (GEN) Allotment Requisition Format**

Name of Division:- Sasaram-2

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor (In English)	Administrative		Agreement Amount		Allotment Received (in Lacs)	Total Expenditure as per MIS (in Lacs)	Value of Measurement (in Lacs)	Current Demand (in Lacs) (11-9)	Remarks
				Sanction	Amount (in Lacs)	Main Work	Maintenance					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2020-21	Sakempur chiksli PWD road to thumia tola	Rajesh Kumar	0.870	70.762	60.36878	5.87521	59.47659	59.47659	60.07915	0.60256	Complete
2	2019-20	Gachhaie to Gachhaie Tola	SHARWAN AND SUNNY CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1.235	98.595	85.68003	8.46064	67.46990	67.46990	84.76772	17.29782	Complete
3	2019-20	Itimha Sakala Road to Samahata Mathiy	Binod Kumar Singh	2.42	193.403	167.22783	17.68867	151.71429	151.70829	152.45380	0.73951	Complete

Divisional Accounts Officer  
Rural Works Department  
Works Div. Sasaram-2

Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division, Sasaram-2

26/06/23